

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट में 2 जुलाई से, पहले की तरह किराया लगेगा, सवारियां आगे के दरवाजे से चढ़ पाएंगी और गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (3 जून, 2020) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) ने, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की, शहर को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर कई उपायों का ऐलान किया। वीरवार, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, बस पर सवारियों के लिए पहले की तरह किराया देना जरूरी होगा और वे आगे के दरवाजे से चढ़ पाएंगी। पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ओन्टैरियो सरकार (Government of Ontario) की पुरज़ोर सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी होगा।

सवारियों और स्टाफ का स्वास्थ्य और सुरक्षा, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में मुख्य प्राथमिकता है और दोनों को सुनिश्चित करते हुए ये बदलाव लागू किए जाएंगे।

किराए का भुगतान

2 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सभी बसों पर किराए का भुगतान करना जरूरी होगा। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे बिना संपर्क के भुगतान करने के लिए, अपना किराया देने हेतु अपना PRESTO कार्ड प्रयोग करें। किरायों के बारे में पूरे विवरणों के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

बुजुर्गों को पहुंच योग्य ट्रांज़िट प्रदान करना, सिटी की मुख्य प्राथमिकता है। कोविड-19 (COVID-19) के प्रभाव को देखते हुए, सारे एक्टिव (सक्रिय) सीनियर आई.डी. (ID) कार्डों पर, अनिश्चित समय तक कोई एक्सपायरी डेट (अवधि समाप्त होने की तारीख) नहीं होगी। ट्रांज़िट के टर्मिनल्स पर ग्राहक काउंटर (Customer Counters), 2 जुलाई से पहले दुबारा खुल जाएंगे। हम ताज़ा जानकारी उपलब्ध होते ही प्रदान करेंगे।

2020 के प्रस्तावित किराया बदलाव, अगले नोटिस तक स्थगित कर दिए गए हैं।

बसों पर आगे के दरवाजे से चढ़ना

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, सभी सवारियों को बसों पर आगे के दरवाजे से चढ़ने की अनुमति देगी। सवारियों को पिछले दरवाजों से उतरना होगा। सवारियों को याद दिलाया जाता है कि वे एक-दूसरे से दो मीटर (छह फुट) दूर रहकर शारीरिक दूरी कायम रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

गैर-मेडिकल मास्क

पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की, पील पब्लिक हेल्थ और ओन्टैरियो सरकार की पुरज़ोर सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा।

हालांकि मास्क जरूरी होंगे, लेकिन दो साल से कम उम्र के बच्चों या विकलांगों या जो लोग अन्य मेडिकल स्थितियों के कारण मास्क नहीं पहन सकते, उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा।

गैर-मेडिकल मास्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पील पब्लिक हेल्थ की [वेबसाइट \(website\)](#) और ओनटैरियो सरकार की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं। इस जानकारी में शामिल है, आपके गैर-मेडिकल मास्क को अच्छी तरह से कैसे पहनना है, फिट करना है, हटाना और साफ करना है।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

पील पब्लिक हेल्थ के मार्गदर्शन से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हर किसी को गैर-मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देती है, खास करके उन जगहों पर, जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो सकता है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

हवाले

“हमें कोविड-19 महामारी के दौरान खुद को और एक-दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करने की जरूरत है। यदि आप ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गैर-मेडिकल मास्क लेकर, बसों और टर्मिनल्स पर होने के समय उसे पहनें। इस बारे में पील पब्लिक हेल्थ और ओनटैरियो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें कि हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, आपके गैर-मेडिकल मास्क को अच्छी तरह से कैसे पहनना है, फिट करना है, हटाना और साफ करना है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कोविड-19 के दौरान, निवासियों को सुरक्षित रूप से गतिशील रखना, हमारी सिटी काउंसिल की प्राथमिकता है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के स्टाफ और सवारियों के लिए ये अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे कि हम लगातार सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सिटी को दुबारा खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते समय, ट्रांज़िट एक सुरक्षित विकल्प है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वाईस 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे समुदाय के लिए स्वस्थ और सुरक्षित ट्रांज़िट सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट दुबारा किराए को लागू करने और आगे के दरवाजे से चढ़ने की अनुमति देने के लिए, सभी जरूरी उपाय कर रहा है। यह पील पब्लिक हेल्थ और ओनटैरियो सरकार की सलाह से, स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से गैर-मेडिकल मास्क को जरूरी तौर पर लागू कर रहा है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca